



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2024 / 22 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 05 सितम्बर, 2024

संख्या-पीसीएच-एचए-(1)11/2010-।-जे.ई.रूल.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2024 को इस विभाग की समसंख्यम अधिसूचना तारीख 127—राजपत्र/2024-13-09-2024 (5825)

12 जून, 2024 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 28 जून, 2024 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/ सुझाव (वों) पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(ग) “हिमाचल का वास्तविक निवासी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए-(1)11/2010-1 तारीख 15-07-2013 द्वारा अधिसूचित और तारीख 20-07-2013 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2024

1.	पद का नाम:	कनिष्ठ अभियन्ता (जिला परिषद् संवर्ग)
2.	पद (पदों) की संख्या:	कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों की, अपने अपने जिला संवर्गों में, ऐसी संख्या होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई हो और समय समय पर मंजूर की जाए।

3.	वर्गीकरण:	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान:	<p>(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंड: अधिसूचना संख्या-पीसीएच-एचबी (15) 01/2022-पे रिविजन-60236-62336, तारीख 23-09-2022 के साथ संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल-II</p> <p>(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या-पीसीएच-एच बी (15) 01/2022-पे रिविजन-60236- 62336, तारीख 23-09-2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल कोष्ठ का साठ प्रतिशत।</p>
5.	श्चयनर पद या श्अचयनर पद:	अचयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु:	<p>18 से 45 वर्ष: परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:</p> <p>परन्तु यह और कि ऊपरी आयु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:</p> <p>परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।</p> <p>(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को</p>

		<p>आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।</p> <p>(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, राज्य सरकार के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।</p>
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	<p>(क) अनिवार्य अर्हताएं:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैतालिस प्रतिशत अंकों सहित सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक/सिविल इंजिनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता:</p> <p>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं:	<p>आयु: लागू नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो:	<p>(क) दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।</p> <p>(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।</p>
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	<p>(क) पच्चीस प्रतिशत संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा,</p> <p>(ख) पचहतर प्रतिशत नियम 11 में यथा उपबंधित रीति में राज्य स्तर पर अनुरक्षित पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर तकनीकी सहायकों के प्रवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा।</p>
11.	प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानांतरण किया जाएगा:	<p>तकनीकी सहायकों के प्रवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाँच वर्ष का सेवाकाल हो।</p>
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना:	<p>जैसी निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।</p>

13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती करने के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	किसी सेवा या पद की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण और / या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क.	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	<p>इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:</p> <p>(I) संकल्पना:</p> <p>(क) इस पॉलिसी के अधीन जिला परिषद् संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:</p> <p>परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।</p> <p>(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:</p> <p>निदेशक पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।</p> <p>(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>(II) संविदात्मक उपलब्धियां:</p> <p>संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को</p>

	<p>अधिसूचना संख्या—पीसीएच—एचबी(15)01 / 2022—पे रिविजन—60236—62336, तारीख 23—09—2022 के अनुसार समेकित नियत संविदात्मक रकम 23100/— प्रति मास की दर से (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगा) संदत्त की जाएगी।</p> <p>(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:</p> <p>सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।</p> <p>(IV) चयन प्रक्रिया:</p> <p>सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखत परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।</p> <p>(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:</p> <p>जैसी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।</p> <p>(VI) करार:</p> <p>अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न प्ररूप—प के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।</p> <p>(VII) निबन्धन और शर्तें:</p> <p>(क) संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को अधिसूचना संख्या—पीसीएच—एचबी(15)01 / 2022—पे रिविजन - 60236—62336, तारीख 23—09—2022 के अनुसार 23100/— रूपए प्रति मास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के वेतन पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के 60 प्रतिशत होगा) संदत्त की जाएगी।</p> <p>(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे</p>
--	---

	<p>परिदत्त की गई है, से पैतालीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पक्ति का होगा को अपील कर सकेगा।</p> <p>(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलेंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूती अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।</p> <p>अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलेंडर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।</p> <p>(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामलों में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा;</p> <p>परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर राज्य के भीतर अन्य जिला परिषद में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र होगा, और उसकी सेवाएं पैतृक जिला परिषद् में निहित रहेगी।</p>
--	--

		<p>(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा, जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती हैं। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0- एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।</p>
16.	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय – समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा:	सेवा के सदस्यों को परीक्षा अर्हित करनी होगी या प्रशिक्षण के लिए ऐसा कोर्स करना होगा जैसा निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
18.	नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए सेवा की शर्त:	नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में सेवा की अन्य शर्तें जो राज्य सरकार के समतुल्य पद/ग्रेड के कर्मचारियों को यथा लागू है, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।
19.	नियुक्ति प्राधिकारी और पंचायतों का आवंटन:	(1) निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश की सिफारिश के पश्चात् सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा। नियुक्ति पत्र प्ररूप-1 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा जारी किया

		<p>जाएगा और वह किसी कनिष्ठ अभियन्ता को पंचायत समिति आवंटित करेगा।</p> <p>(2) जिला परिषद का सचिव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के परामर्श से पंचायतों का वृत्त इस प्रकार से बनाएगा ताकि पंचायतों का समीप्य सुनिश्चित किया जा सके। इन वृत्तों को सचिव जिला परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाई जाएगी। कनिष्ठ अभियन्ता के वृत्त एक बार अधिसूचित हो जाने पर उसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पुर्वानुमोदन के बिना नहीं बदला जाएगा। सचिव, जिला परिषद द्वारा एक कनिष्ठ अभियन्ता को एक ही वृत्त आवंटित किया जाएगा।</p> <p>(3) सम्बद्ध पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवास कार्यक्रम, हाजिरी, आकस्मिक अवकाश और कार्य तथा आचरण इत्यादि के लिए नियंत्रण अधिकारी होगा।</p>
20.	कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता:	नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता के पद की भर्ती और प्रोन्नति के पश्चात् अवधारित की जाएगी।
21.	जॉब चार्ट:	कनिष्ठ अभियन्ता का जॉब चार्ट ऐसा होगा, जैसा निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
22.	न्यू पेंशन स्कीम:	नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली न्यू पेंशन स्कीम की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
23.	शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

प्रारूप-I

[नियम 19 (1) देखें]

नियुक्ति पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री..... निवासी
गाँव.....तहसील.....जिला..... से कनिष्ठ अभियन्ता के पद के लिए
प्राप्त आवेदन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी को उक्त

पद के लिए चयनित किया गया है। इसलिए, उसे निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रस्थापित की जाती है:-

1. उसे प्रतिमास रूप (अंको में) (अक्षरों में) का पारिश्रमिक संदत किया जाएगा।
2. कोई अन्य भत्ता, जैसा भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय है, उसे संदत नहीं किया जाएगा।
3. नियुक्ति, संविदा आधार पर, कार्यग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे नियमों के उपबन्धों के अनुसार विस्तारित किया जा सकेगा।
4. नियुक्ति, नियमों और करार में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों के भी अध्यक्षीन होगी।
5. कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पिछले कम से कम तीन वर्ष से उसे जानने वाले दो राजपत्रित अधिकारियों से, जिला परिषद् के समाधान के लिए, पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
6. नियुक्ति, पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व, सम्बद्ध जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आरोग्य प्रमाण-पत्र जारी करने के अध्यक्षीन होगी।
7. यथास्थिति, शैक्षिक अर्हताओं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक अक्षमता, गरीबी रेखा से नीचे से संबन्धित सदस्य या पूर्व अनुभव की बाबत, मूल प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

यदि उसे उपरोक्त निबन्धन और शर्तें स्वीकार्य हैं, तो वह, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में तुरन्त, किन्तु इस नियुक्ति पत्र के जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अपश्चात्, संविदा करार के निष्पादन के साथ-साथ कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी।

स्थान
तारीख.....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्
जिला.....
हिमाचल प्रदेश।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....

प्रारूप-II

[नियम 15-क (vi) देखें]

करार

कनिष्ठ अभियन्ता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम के मध्य निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी
..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिला परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के मध्य आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता की 23100/-रूपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के वेतन पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के 60 प्रतिशत होगा) संदत्त की जाएगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (सामापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के अनधिक प्रसूति अवकाश (जिवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामलों में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा;

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हों।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्तों के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख के छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के संबन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA (1) 11/2010-I-J.E. Rule, dated 05-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 5th September, 2024

No. PCH-HA-(1)11/2010-I-J.E.Rule.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Junior Engineer in Zila Parishads) Rules, 2024 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 28th June, 2024 for inviting objections and suggestions from the general public, *vide* this department notification of even number dated 12th June, 2024 as required under the provisions of Section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Services of Junior Engineer in Zila Parishad Cadre) Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(b) “Form” means a form appended to these rules; and

(c) “Bonafide Himachali” means a person who has been defined as such by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Junior Engineer in Zila Parishads) Rules, 2013 notified *vide* notification number PCH-HA-(1)11/2010-I, dated 15-07-2013 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 20-07-2013 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the rules so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Panchayati Raj).

Annexure- “A”

HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICES OF JUNIOR ENGINEERS IN ZILA PARISHAD CADRE) RULES, 2024

1.	Name of the post:	Junior Engineer (Zila Parishad Cadre)
2.	Number of the post(s):	There shall be such number of posts of Junior Engineer as sanctioned and may be sanctioned by the State Government from time to time in the respective Zila Parishads cadre.
3.	Classification:	Class-III (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay:	(i) Pay Band for regular incumbents: Level 11 of the pay matrix attached with notification No.- PCH-HB (15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336,

		<p>dated 23-09-2022.</p> <p>(ii) Emoluments for contract employees:</p> <p>60 percent of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per notification no. PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336, dated 23-09-2022.</p>
5.	Whether "Selection" Post or Non-Selection Post:	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment:	<p>18 to 45 years:</p> <p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:</p> <p>Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the General or Special Order(s) of the State Government:</p> <p>Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.</p> <p>(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.</p>

		(2) Age and experience, in the case of direct appointment, are relaxable at the discretion of the State Government in case the candidate is otherwise well qualified.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):	<p>(a) Essential Qualifications: Diploma in Civil Engineering or Bachelor of Civil Engineering/ Bachelor of Technology in Civil Engineering with minimum 50% marks from any recognized University or Institution duly recognized by Central and State Government and 45 % marks for SC/ST candidates.</p> <p>(b) Desirable Qualification Knowledge of customs, manners and dialect of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.</p>
8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit (s) will apply in the case of the promotee(s):	Age : N.A. Educational qualifications: N/A.
9.	Period of probation, if any:	<p>(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year, as may be ordered by the Chief Executive Officer, Zila Parishad in special circumstances and reasons thereof to be recorded in writing.</p> <p>(b) No probation in case of appointment on contract basis.</p>
10.	Method(s) of appointment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	<p>(a) 25 % by direct recruitment on contract basis</p> <p>(b) 75 % by promotion from amongst the category of Technical Assistants, on the basis of inter-se-seniority maintained at the State level, in a manner as provided in rule 11.</p>
11.	In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment /transfer is to be made.	By promotion from amongst the category of Technical Assistants having 5 year's regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
12.	If a Departmental	As may be constituted by the Director, Panchayati Raj

	Promotion Committee exists, what is its Composition ?	Department Himachal Pradesh from time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14.	Essential requirement for direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in case of direct recruitment, shall be made by on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other Recruitment Agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test, standard / syllabus etc. of which, will be determined by the Commission or other Recruiting Agency/authority, as the case may be.
15-A.	Selection for appointment to the post by Contract Appointment:	<p>Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—</p> <p>(1) CONCEPT:</p> <p>(a) Under this policy the Junior Engineer in Zila Parishad Cadre will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:</p> <p>Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned Chief Executive Officer, Zila Parishad shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.</p> <p>(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:</p> <p>The Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the State Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the Himachal Pradesh Public Service Commission.</p>

	<p>(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions specified in these rules.</p> <p>(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS: The Junior Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 23100/- P.M. (which shall 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) as per notification no. PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336, dated 23-09-2022.</p> <p>(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY: The Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad will be the appointing and disciplinary authority.</p> <p>(IV) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of a written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by Himachal Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur/ or other recruiting agency/authority, as the case may be.</p> <p>(V) CONTRACTUAL APPOINTMENTS COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT: As may be constituted by the HPPSC from time to time.</p> <p>(VI) AGREEMENT: After appointment of a candidate, he/she shall sign an Agreement as per Form-II appended to these rules.</p> <p>(VII) TERMS AND CONDITIONS:</p> <p>(a) The Junior Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 23100/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) as per notification no. PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336, dated 23-09-2022.</p> <p>(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination</p>
--	--

	<p>orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority, who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order is delivered to him/her.</p> <p>(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 day's medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.</p> <p>Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.</p> <p>(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:</p> <p>Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.</p> <p>(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis within the State in other Zila Parishad on administrative ground and his/her services shall be borne by the parent Zila Parishad.</p> <p>(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in case of gazetted Government Servant and by the Government Medical Officer in the case of non gazetted Government Servant. In case of women candidates, who are to be</p>
--	---

		<p>appointed against posts carrying hazardous nature of duties and if in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate; who as a result of test is found to be pregnant for twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specifies above, she may be appointed to the post kept reserved for her.</p> <p>(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.</p> <p>(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules, Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employee's Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to Contract Appointee(s).</p>
16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination:	The members of the service shall have to qualify examination or to undergo such courses for training to be specified by the Director, from time to time.
18.	Conditions of Service for regular appointees:	The other conditions of service in the case of regular appointees shall apply mutatis-mutandis as are applicable in the case of State Government employee of equivalent position/grade.
19.	Appointing Authority and allocation of Panchayats:	<p>(1) After recommendation of Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh the Chief Executive Officer of concerned Zila Parishad shall be the appointing authority. Letter of appointment shall be issued by the Chief Executive Officer, Zila Parishad, in FORM-I and he shall allocate the Panchayat Samiti to a Junior Engineer.</p> <p>(2) The Secretary of Zila Parishad, with the prior approval of the Chief Executive Officer of Zila Parishad</p>

		<p>shall make circle of the Panchayats in consultation with Chief Executive Officer, Panchayat Samiti in such a way that contiguity of the Panchayats in the circle is ensured. These circles shall be notified by Secretary Zila Parishad and copy of the said notification shall be supplied to the Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh. Junior Engineer Circle once notified shall not be changed without prior approval of the Chief Executive Officer of Zila Parishad. One Junior Engineer shall be allocated one circle by Secretary Zila Parishad.</p> <p>(3) The Chief Executive Officer of the concerned Panchayat Samiti shall be the controlling officer for tour program, attendance, casual leave and work and conduct etc. of the Junior Engineer.</p>
20.	Seniority of Junior Engineer:	The seniority of the regular Junior Engineers shall be determined after recruitment/promotion to the post of Junior Engineer as per rules/instructions issued by the State Government from time to time.
21.	Job Chart:	The job chart for the Junior Engineer shall be such as may be specified by the Director, Panchayati Raj Himachal Pradesh from time to time.
22.	New Pension Scheme:	The Regular appointees shall be entitled for availing the facility of New Pension Scheme as may be notified by the State Government.
23.	Power to relax:	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

FORM-I

[See rule 19(1)]

APPOINTMENT LETTER

With reference to the application for the post of Junior Engineer received from Shri/Smt./Kumari.....son/wife/daughter of Shri, resident of Village....., Tehsil, District it is informed that the said Shri/Smt./Kumari has been selected for the said post. Therefore, he/she is hereby offered appointment as Junior Engineer on the following terms and conditions:—

1. There shall be paid to him a remuneration of rupees (in figures) (in words) per month.
2. Other allowance, whatsoever admissible to the employees of State Government from time to time shall be paid to him.

3. The appointment shall be on contract basis for a period of one year from the date of joining; which may be extended as per the provisions of the rules.
4. The appointment shall further be subject to terms and conditions laid down in the rules and agreement.
5. The antecedent verification certificate to the satisfaction of the Zila Parishad from the Executive Magistrate or two Gazetted officers known to him at least for the last three years shall be given by him at the time of submission of joining report.
6. The appointment shall be subject to the production of Certificate of Medical Fitness issued by the Chief Medical Officer of the concerned district before joining to the post.
7. The attested copies of original certificates in respect of educational qualifications, caste, bonafide resident, physically handicapped, member belonging to below poverty line or past experience, as the case may be, shall be submitted along with joining report.

In case, the above terms and conditions are acceptable to him, he/she may report for execution of the contract agreement as well as for joining duty in the office of undersigned immediately but not later than fifteen days from the date of issue of this appointment letter.

Place :

Chief Executive Officer,
Zila Parishad _____
District _____
Himachal Pradesh.

Date :

Shri/Smt./Kr. _____

FORM-II

[See rule 15-A(VI)]

AGREEMENT

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Engineer and the Chief Executive Officer, Zila Parishad _____ Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt./Kumari _____ s/o/d/o/w/o Shri _____ r/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Zila Parishad _____ through its Chief Executive Officer (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Engineer on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Engineer for a period of 1 (one) year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the Chief Executive Officer, Panchayat Samiti shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.23100/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority, who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order is delivered to him/her.
4. Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting shall be eligible for transfer on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by the Medical Board in case of a Gazetted Government Servant and by the Government

Medical Officer, in the case of Non-Government Servant. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and if in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of test is found to be pregnant for twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness after six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of Medical fitness certificate from the authority, as specifies above, she may be appointed for the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

2. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

2. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th August, 2024

No. PLG. FC (F) 1-1 /2023 (DPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 31st December, 2024 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following as non-official members of the **District Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee of District Mandi** with immediate effect as under:—

1.	Sh. Sanjeev Guleria, VPO Leda, Tehsil Rewalsar, District Mandi, H.P. 83040-00001.
2.	Sh. Rajender Mohan s/o Late Sh. Gopi Ram, Ward No. 4, Nela Mandi, District Mandi, H.P. 94184-94222.
3.	Sh. Anil Sen, House No. 58/9, Bhagwan Street Mandi, District Mandi, H.P. 94180-00549.
4.	Sh. Yograj, Yoga House No. 223/12, Ram Nagar, Mandi, District Mandi, H.P. 82197-41077.
5.	Miss. Alknanda Handa, r/o Village Chhipnu, PO Bijni, Ward No. 1, Khaliyar, District Mandi, H.P. 70187-00312.
6.	Sh. Ranjit Mandyal, Village Lohardi, PO Randhara, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. 94188-00771.
7.	Sh. Pardeep Sharma, VPO Gutkar, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. 94180-05117.
8.	Sh. Vijay Kanv Village Jamnoun, PO & Tehsil Baldwara, District Mandi, H.P. 94180-466471.
9.	Sh. Om Prakash Saini, Village Sihan, PO Galgal, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. 94183-00127.
10.	Sh. Joginder Guleria, VPO Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. 94186-33007.
11.	Sh. Jagdish Reddy, Village Riyara, PO Sangalwara, Tehsil Thunag, District Mandi, H.P. 98160-22951.
12.	Sh. Arun Arya, House No. 303/3, Rasmian, PO Sunder Nagar-I, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. 94181-66100.
13.	Sh. Yov Raj, Village Sanarli, PO Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi, H.P. 91293-93939.
14.	Sh. Manu Gupta, VPO Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. Pin Code 175027 94180-45334

1. Functions of the Committee:

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committee will function as the Policy and Planning Council at the district level to give directions to the Administrative and Technical Personnel besides according approval, overseeing the implementation in terms of monitoring and review in respect of developmental schemes/Programmes and 20-Point Programme to be executed at district level. The Committee will also have the final authority to approve the shelf of schemes/projects under various decentralized planning programmes including Backward Area Sub Plan. The meeting of the Committee will be held on quarterly basis as per date and venue fixed by the Chairman. The recommendations and suggestions of this committee will be sent to all the concerned Heads of Departments for taking appropriate action with a copy to Planning Department, H.P.

2. Conditions Governing TA/DA:

The Official Members/non-official members shall be entitled for TA/DA as admissible under the rules as notified by the Finance Department from time to time.

By order,
Sd/-
(DEVESH KUMAR, IAS),
Pr. Secretary (Planning).

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्रीमती मनसा देवी पुत्री दमोदर, निवासी टीका कुंसारा, डाकघर ऊटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

यह दरखास्त श्रीमती मनसा देवी पुत्री दमोदर, निवासी टीका कुंसारा, डाकघर ऊटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका जन्म दिनांक 10-12-1939 को हुआ है परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत ऊटपुर के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-12-1939 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म तिथि उपरोक्त को ग्राम पंचायत ऊटपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मनसा देवी पुत्री दमोदर, निवासी टीका कुंसारा, डाकघर ऊटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 10-12-1939 को ग्राम पंचायत ऊटपुर के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 29-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्रीमती अंजू बाला पुत्री प्रेम सिंह, निवासी टीका सिंहडी, डाकघर कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

यह दरखास्त श्रीमती अंजू बाला पुत्री प्रेम सिंह, निवासी टीका सिंहडी, डाकघर कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका जन्म दिनांक 11-11-1973 को हुआ है परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकॉर्ड में

उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 11-11-1973 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म तिथि उपरोक्त को ग्राम पंचायत कक्कड़ में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अंजू बाला पुत्री प्रेम सिंह, निवासी टीका सिंहडी, डाकघर कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 11-11-1973 को ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्रीमती पवना देवी पुत्री सरवन सिंह, निवासी टीका गवारडू, डाकघर गवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जिला रजिस्ट्रार एवं (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST- BIRTH & DEATH) Del.-2024/1-13879 दिनांक 30-07-2024 अनुसार श्रीमती पवना देवी पुत्री सरवन सिंह, निवासी टीका गवारडू, डाकघर गवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1970 को हुआ है परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत गवारडू के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 15-03-1970 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत गवारडू में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पवना देवी पुत्री सरवन सिंह, निवासी टीका गवारडू, डाकघर गवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 15-03-1970 को ग्राम पंचायत गवारडू के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 29-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

पुराना केस नम्बरान : 16/2015 व 18/2015
आगामी पेशी : 18-09-2024

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन
नये केस नम्बरान 15/2024 व 16/2024

तिलक राज

बनाम

प्रेम कुमार आदि

प्रार्थी तिलक राज पुत्र श्री मोती राम, निवासी महाल सुजानपुर वार्ड नं0 9, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने भू-राजस्व अभिलेख 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 294, कित्ता जात-05, रकबा तादादी 04 K -08 M व खाता नं0 294, कित्ता-3, रकबा 00 K-19 M, जुमला रकवा 05 K-07 M टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर की भूमि तकसीम हुकमन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में नकल जमाबन्दी साल 2007-08 अनुसार आवेदन पत्र दायर किए हैं जिसमें साधारण तारीका से पक्षकारों/हिस्सादारान को समन तामील न हो सके हैं व वादी ने हाजर अदालत आवेदन पत्र गुजारा की सम्बन्धित हिस्सादारान के अस्थायी पता उससे मालूम न हैं। अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 की जेर धारा 21 ता 23 के प्रावधान व ताहाल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को मध्यनजर रखते हुए अदालत द्वारा जारी इस इशतहार के माध्यम से निम्नलिखित हिस्सादारान को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तवर्णित मुकद्दमा में अपना-अपना पक्ष रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी/तहसीलदार सुजानपुर, जिला हमीरपुर की अदालत में दिनांक 18-09-2024 को सुबह 11 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आवे अन्यथा गैरहाजिर रहने की सूरत में उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व उसके उपरांत उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में उनका कोई भी एजर/एतराज मान्य न समझा जाएगा।

विवरण प्रतिवादीगण/सह-हिस्सादारान :-

1. श्री प्रेम कुमार सपुत्र स्व0 रोशन लाल, 2. स्व0 अनिल कुमार पुत्र रोशन लाल के कानूनी वारसान:-i) श्रीमती सुकन्जना पत्नी, ii) प्रशान्त जोगरा पुत्र व iii) प्रियंका जोगरा पुत्री स्व0 अनिल कुमार, 3. श्री मनोज कुमार पुत्र, 4. स्वर्णा देवी, 5. मीना कुमारी, 6. सुनीता देवी पुत्रिया व (7 व 9) सत्या देवी पत्नी रोशन लाल, 8. सीमा कुमारी, 9. अंचली देवी पुत्रियां स्व0 रोशन लाल, 10. दीक्षित पुत्र, 11. शालिनी कुमारी, 12. रजनी कुमारी पुत्रीयां, 13. सावित्रा देवी पत्नी सुशील कुमार, 14. केशो राम पुत्र रिडकू, 15. विकास, 16. संजय पिसरान, 17. विमला दवी पत्नी सीता राम, समस्त निवासीगण महाल सुजानपुर, मौता भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

यह इशतहार आज दिनांक 18-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

कार्यालय नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में अस्टाम विक्रेता के दो पद खाली हैं जोकि भरे जा रहे हैं। इस संदर्भ में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 18-09-2024 दोपहर बाद 03.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपने आवेदन डाक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं या फिर किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 05.00 बजे तक स्वयं आकर जमा करवा सकते हैं। दिनांक 18-09-2024 को दोपहर बाद 03.00 बजे के पश्चात कोई भी आवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षरित /—
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /2024

Smt. Savita Ray w/o Bishnu Ray, r/o V.P.O. & Gram Panchayat Rakkad, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Savita Ray w/o Bishnu Ray, r/o V.P.O. & Gram Panchayat Rakkad, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Samir Ray s/o Bishnu Ray का जन्म दिनांक 04-04-2011 का हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Samir Ray के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-09-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

Nirmala Devi d/o Sh. Inder Singh, r/o V.P.O. Mandal, Tehsil Dharmashala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public

2. Commissioner –cum- Registrar Births and Deaths, MCD, Dharmashala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Nirmala Devi d/o Sh. Inder Singh, r/o V.P.O. Mandal, Tehsil Dharmashala, District Kangra (H.P.). ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Nirmla Devi d/o Inder Singh का जन्म दिनांक 17-12-1969 है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nirmla Devi के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-09-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

Babita Ray w/o Jagan Nath Ray, r/o V.P.O. & Gram Panchayat Rakkar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public

2. Commissioner –cum- Registrar Births and Deaths, MCD, Dharmashala

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Babita Ray w/o Jagan Nath Ray, r/o V.P.O. & Gram Panchayat Rakkar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Ravi Kumar Ray, s/o Jagan Nath का जन्म दिनांक 01-06-2009 है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ravi Kumar Ray के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-09-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 54 / 2024

तारीख मरजुआ : 12-08-2024

आगामी पेशी : 11-09-2024

श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री खीमी राम, निवासी गांव बिहाली, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री खीमी राम, निवासी गांव बिहाली, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की बहन श्रीमती नोखू की मृत्यु दिनांक 23-12-1984 को हो चुकी है। प्रार्थी के अन्य सदस्य भी श्रीमती नोखू की मृत्यु की तिथि को ग्राम पंचायत तलाड़ा के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं करवा सके। अब प्रार्थी अपनी बहन श्रीमती नोखू की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड तलाड़ा में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार प्रति, शपथ-पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-09-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 14/2021

तारीख दायर : 22-08-2022

अगली सुनवाई : 23-09-2024

1. श्री मंगल सैन पुत्र श्री सीरू, निवासी गांव कोछडी, डा0 ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

1. श्रीमती दिनेश कुमारी पुत्री श्री बालक राम, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

दरखास्त तकसीम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 149/379 ता 380, कित्ता 4, रकबा तादादी 00-71-02 है0 व खाता/खतौनी नं0 150/381 ता 389, कित्ता 23, रकबा तादादी 01-04-78 है0, कुल रकबा तादादी 0-09-66 है0 वाका चक त्यावल, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0।

श्री मंगल सैन पुत्र श्री सीरू, निवासी गांव कोछडी, डा0 ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अराजी खाता/खतौनी नं0 149/379 ता 380, कित्ता 4, रकबा तादादी 00-71-02 है0 व खाता/खतौनी नं0 150/381 ता 389, कित्ता 23, रकबा तादादी 01-04-78 है0, कुल रकबा तादादी 0-09-66 है0 वाका चक त्यावल, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चली आ रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 23-09-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मूकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे प्रतिवादीगण उपरोक्त को प्रकरण का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटखाई, जिला शिमला, हि0 प्र0

केस नं0 : 4/2024

दिनांक पेशी : 20-02-2024

स्व0 राजिन्दर लाल, निवासी घासीगांव, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 31(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री हरीष कुमार पुत्र स्व० राजिन्दर लाल, निवासी घासीगांव, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हि० प्र० ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत पनोग, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा घासीगांव व उप महाल रकांव, आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पनोग के मौजा घासीगांव में राजेन्दर व उप महाल रकांव में राजिन्दर सिंह दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपने पिता का नाम जोकि मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत पनोग व आधार कार्ड के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पनोग के महाल घासीगांव व उप महाल रकांव में राजिन्दर सिंह की जगह राजिन्दर लाल दुरुस्त करवाना चाहता है।

इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु पटवारी हल्फा पनोग ब्राये छानबीन मय रिपोर्ट बारे भेजा गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी राजस्व माल कागजात स्पष्ट किया कि प्रार्थी के पिता का नाम महाल घासीगांव में राजिन्दर व उप महाल रकांव में राजिन्दर सिंह दर्ज है। जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी पनोग द्वारा भी अभिलाषा की गई।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-09-2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कोटखाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकते हैं। अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कोटखाई, जिला शिमला, हि० प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि० प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 67 IX / 2023

तारीख मरजुआ : 18-10-2023

तारीख पेशी : 25-09-2024

श्रीमती गिरजा शर्मा पत्नी श्री प्रेम शर्मा, निवासी पार्वती त्रिज धाम परमार वन कलौनी, शोधी, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

निर्मला देवी पुत्री सहजीया राम, निवासी शिलगांव आन्दपुर, शिमला (हि० प्र०)

प्रतिवादीगण।

श्रीमती गिरजा शर्मा पत्नी श्री प्रेम शर्मा, निवासी पार्वती त्रिज धाम परमार वन कलौनी, शोधी, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 66/19 खसरा नं० 349/3 वाका महाल शिलगांव, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि० प्र०) बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु वादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहा है।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं० 2 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा

भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 25-09-2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 03-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अनंत राम पुत्र स्व0 करमु, निवासी गांव बंटाडी, डा0 मंडोह, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में अनंत राम पुत्र स्व0 करमु, निवासी गांव बंटाडी, डा0 मंडोह, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 का प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थी का जन्म 25-12-1963 को गांव बंटाडी, ग्राम पंचायत मंडोल में हुआ है। प्रार्थी का जन्म परिवार रजिस्टर में 25-12-1963 दर्ज है परन्तु जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर ने प्रार्थी का जन्म दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मण्डोल, तहसील जुब्बल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपर्युक्त प्रार्थी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्डोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करने बारे कोई भी उजर एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2024 को प्रातः 10:00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर असालतन व वकालतन कर सकता है यदि उक्त तिथि तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्डोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है और उपरोक्त व्यक्ति का जन्म पंजीकरण करने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत मण्डोल को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**समक्ष श्री गोपाल कृष्ण मुखिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्री जगदीश चंद पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव लजवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री जगदीश चंद पुत्र श्री मोही राम, निवासी गांव लजवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 05-06-1984 है, जो ग्राम पंचायत सैंज के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा सायल का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(गोपाल कृष्ण मुखिया),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री गोपाल कृष्ण मुखिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 5/2024

तारीख पेशी : 16-09-2024

श्री भीम सिंह पुत्र श्री मान्सा राम, निवासी गांव लजवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री भीम सिंह पुत्र श्री मान्सा राम, निवासी गांव लजवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र कर्ण जिसकी जन्म तिथि 01-11-2007 है, जो ग्राम पंचायत सैंज के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद

कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(गोपाल कृष्ण मुखिया),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 23/2024

दायर तिथि : 17-08-2024

श्री गुरजीत सिंह पुत्र जसमेर सिंह, निवासी पुरुवाला संतोशगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरजीत सिंह पुत्र जसमेर सिंह, निवासी पुरुवाला संतोशगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-4241, दिनांक 12-08-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1997 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पुरुवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या बकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री गुरजीत सिंह पुत्र जसमेर सिंह, निवासी पुरुवाला संतोशगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : /2024

दायर तिथि : 16-08-2024

श्रीमती अतरो देवी पुत्री श्री सियाराम, निवासी शिवा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अतरो देवी पुत्री श्री सियाराम, निवासी शिवा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कौसिस/2024-3422, दिनांक 24-07-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1963 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भैला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-09-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या बकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सुरत में श्रीमती अतरो देवी पुत्री श्री सियाराम, निवासी शिवा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील वीहडू कलां,
जिला रुना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० 06/NTBC/2024

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 09-09-2024

विपन कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम विपन कुमार पुत्र थोहलू राम, वासी महाल डोहक, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है। जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल डोहक, खेवट नं0 46, जमाबन्दी वर्ष 2021-22 के अनुसार विजय कुमार दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम विजय कुमार की बजाए विजय कुमार उपनाम विपन कुमार पुत्र थोहलू राम, वासी महाल डोहक, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल डोहक, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 09-09-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील वीहडू कलां,
जिला ऊना (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 08 / NTBC / 2024

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 21-09-2024

श्रीमती लीला रानी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थिया ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम श्रीमती लीला रानी विधवा प्रकाश चन्द, वासी महाल घुगन ककराना, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है। जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल घुगन ककराना, खेवट नं0 56, जमाबन्दी वर्ष 2021-22 के अनुसार श्रीमती लीला देवी विधवा प्रकाश चन्द दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम श्रीमती लीला देवी की बजाए श्रीमती लीला देवी उपनाम श्रीमती लीला रानी विधवा प्रकाश चन्द वासी महाल घुगन ककराना, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल घुगन ककराना, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 21-09-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 21-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील वीहडू कलां,
जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 09/NTBC/2024

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 21-09-2024

नरेन्द्र कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारा इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उन्होंने अपने पिता का नाम प्रकाश चन्द पुत्र रामदित्तू, वासी महाल वल्ह खौली, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है। जबकि उनके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल वल्ह खौली, जमाबन्दी वर्ष 2020-21 के अनुसार पैसू राम दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का नाम पैसू राम की बजाए पैसू राम उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र रामदित्तू, वासी महाल वल्ह खौली, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल वल्ह खौली, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 21-09-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 21-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Rajender Singh s/o Sh. Prithvi Singh, r/o Vill. Kotla Sikardi, P.O. Surla Charjan, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Rajender Singh (Previous Name) to Rajinder Singh Parmar (New Name). All concerned please may note.

RAJENDER SINGH
s/o Sh. Prithvi Singh,
r/o Vill. Kotla Sikardi, P.O. Surla Charjan,
Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Chander Lata w/o No. 168373T, Rank Ex. SPO Pawan Kumar, r/o Vill. Thana Khurd, P.O. Mandli, Sub-Tehsil Bihru Kalan, Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.) declare that I have changed my name from Preeti Thakur to Chander Lata. All concerned please may note.

CHANDER LATA
w/o No. 168373T, Rank Ex. SPO Pawan Kumar,
r/o Vill. Thana Khurd, P.O. Mandli,
Sub-Tehsil Bihru Kalan,
Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Balesh Kumar Sharma s/o Sh. Laxmi Dass, r/o H. No. 100/4, P.O. Bhojpur, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare on oath that I have changed my name as Balesh Sharma from previous name Balesh Kumar Sharma. Whereas, previously I, too, have changed my name two times. Firstly as Balesh Kumar from Balesh Sharma and secondly as Balesh Kumar Sharma from Balesh Kumar. Declare that all the names are of one and the same person. Concerned may note please.

BALESH KUMAR SHARMA
s/o Sh. Laxmi Dass,
r/o H. No. 100/4, P.O. Bhojpur,
Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamli Devi w/o Devi Singh, VPO Batheri, Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) declare that in my Adhaar No. 9633 8507 3963 my name Kamla Devi is wrongly entered. Correct name is Kamli Devi.

KAMLI DEVI
w/o Devi Singh,
VPO Batheri, Tehsil Kataula,
District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pawan Kumar s/o Sh. Anat Ram, r/o Bhimta Niwas, Durga Mata Mandir, P.O. Dhalli, Tehsil and District Shimla-12 (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my son namely Master Mir is holding a Passport bearing No. V7955214 issued by the Passport Office Dubai on dated 03-06-2022 and expire on dated 02-06-2027. That now, I want to change the name of my son Mir (Previous Name) to Mashal (New Name) in all his relevant documents including his passport.

PAWAN KUMAR
s/o Sh. Anat Ram,
r/o Bhimta Niwas, Durga Mata Mandir,
P.O. Dhalli, Tehsil and District Shimla-12 (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mahender Kumar s/o Krishanu Ram, r/o Vill. Gassaur, P.O. Jukhala, Teh. Sadar, District Bilaspur (H.P.) do hereby declare that in my son Axat Thakur's matriculation certificate (Roll No. 2211124005) and other academic record my, my wife and my son's names are wrongly entered as Mahender, Sanjiv and Axat respectively instead of correct names i.e. Mahender Kumar, Sanjeev Kumari and Axat Thakur. Which may be corrected.

MAHENDER KUMAR

*s/o Krishanu Ram,
r/o Vill. Gassaur, P.O. Jukhala,
Teh. Sadar, District Bilaspur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Warjeet Kumari w/o Mansa Ram, Village Chathlar, P.O. Balduhak, Teh. Nadaun, District Hamirpur (H.P.) do hereby declare that in Panchayat Register & Bonafide my name is Warjeet Kumari but is wrongly entered in my Adhaar Card as Waljeet Kumari. Correct my name in Adhaar Card as Warjeet Kumari instead of Waljeet Kumari. Warjeet Kumari & Waljeet Kumari are same person. All concerned note.

WARJEET KUMARI

*w/o Mansa Ram,
Village Chathlar, P.O. Balduhak,
Teh. Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*